

वैक ऑफ बड़ोदा
Bank of Baroda
Munshipuliya Branch (Erstwhile Vijaya Bank),
15/93, Indira Nagar, Ring Road, Munshipuliya,
Lucknow, Ph: 7565004825
Email: vjmuns@bankofbaroda.com

DEMAND NOTICE

Notice U/S 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of Bank of Baroda issued Demand Notices U/S 13(2) of SARFAESI Act 2002 to the borrowers and Guarantors herein below mentioned. Consequently upon the dispatch of such Notices through Post and returned back undelivered from the borrowers/Guarantors addresses. Through this publication they are hereby called upon to repay the amount within 60 days from this date of Publication of said notice failing which the bank will take the possession of the immovable & movable property and will sell it through the process in exercise of powers conferred under sub-section (4) of section 13 of the security interest (Enforcement) Rules 2002.

The borrowers/guarantors in particular and the public in general are hereby CAUTIONED not to deal with the immovable & movable property and any dealing with the immovable & movable property mentioned below will be subject to the charge of the Bank of Baroda for the Outstanding Amount and interest thereon and charges.

Sl. No.	Name & address of the Borrower/ Guarantor/ Date of Demand Notice	Outstanding Balance	Brief Description of Securities
1	Borrower: Mr. Ajendra Pratap Singh, Mr. Amrendra Kumar Singh & Mr. Anupam Singh All S/o Mr. Arvind Kumar Singh All R/o 636/C, Vivekanand Colony, Near Takrohi, Chinhath, Lucknow. Legal Heirs of: Ms Nirankar Enterprises Prop. Late Mrs. Kantika Singh R/o 54, Pant Nagar, Gonda, UP. Guarantors: Mr. Ajendra Pratap Singh, Mr. Amrendra Kumar Singh & Mr. Anupam Singh All S/o Mr. Arvind Kumar Singh All R/o 636/C, Vivekanand Colony, Near Takrohi, Chinhath, Lucknow. Legal Heirs of: Mr. Arvind Kumar Singh S/o Mr. Avadh Raj R/o 54, Pant Nagar, Gonda, UP. Date of Demand: 13.07.2022	As on 11.07.2022 (inclusive of Intt. upto 30.06.2022) Rs. 19,86,295.78 + Unapplied Intt. and Unserviced Intt. plus Other Charges	Equitable Mortgage dated 21.01.2016 of House no. 55 constructed over Abadi Khasra No. 84/3/2 Area: 1800 Sq.ft. as per registered Sale Deed dated 20.08.2004 vide Book No. 1 Jild No. 3423 on page no. 405/409 at Serial no. 8015 situated at Mohalla Pant Nagar, Near Income Tax Office, Pargana, Tehsil & District Gonda. Bounded by:- East: House of Jagannath Tripathi, West: Road, North: Road, South: Road.

Date: 28.07.2022; Place: Lucknow
Authorised Officer, Bank of Baroda

वैक ऑफ बड़ोदा
Bank of Baroda
Cantonment Branch (Erstwhile Vijaya Bank),
318, Sadar Bazar, Lucknow
Ph: 7565001884
Email: vjcant@bankofbaroda.com

POSSESSION NOTICE (For immovable property)

Whereas the under signed being the Authorised Officer of Bank of Baroda under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice, to the following borrowers/guarantors to repay the amount mentioned in the notice, with interest within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the below mentioned borrowers and the public in general, that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rule on the dates as mentioned below.

The borrower / guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Bank of Baroda for the amount/liability and interest and other expenses thereon due from the borrowers as mentioned here in below.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Sl. No.	Name & Address of the Borrower /Guarantors/ Date of Demand / Possession Notice	Description of immovable property	Outstanding Amount (₹)
1.	Borrower: Mr. Ashish Babbar S/o Mr. Satish Kumar Babbar R/o (i) Flat No. L-6/F-170 EWS, Gokul Gram Yojana-1, Alamnagar, Munnu Kheda, Lucknow-226009, (ii) 153, Sadar Bazar, Cant Road, Near Chappan Bhog, Lucknow-226002 & Ms Om Enterprises Prop. Mr. Ashish Babbar S/o Mr. Satish Kumar Babbar R/o 153, Sadar Bazar, Cant Road, Near Chappan Bhog, Lucknow-226002. Guarantor: Mr. Rajesh Kumar Arora S/o Mr. Satish Kumar Babbar R/o (i)153, Sadar Bazar, Cant Road, Near Chappan Bhog, Lucknow-226002, (ii) 49K, Purana Quila, Babu Banarasi Das Nagar, Sadar, Lucknow-226002. Demand Notice: 09.05.2022. Possession Notice: 25.07.2022	All that part and parcel of land and building situated at Flat no. L-6/F-170, EWS, G+3, Gokul Gram Yojana No-1, Munnu Kheda, Alamnagar, District Lucknow-226009. Area:47.38 Sq.mtr. Owner: Mr. Ashish Babbar, Bounded by: East: Block No. 5; West: Flat Case (Gallery); North: Flat No. L-6/F-169; South: Flat No. L-6/F-175	Rs. 9,59,545.31+ interest from 28.03.2022 & other expenses

Date: 28.07.2022; Place: Lucknow
Authorised Officer, Bank of Baroda

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
Union Bank of India
REGIONAL OFFICE: SCO 64-65,
BANK SQUARE, SECTOR 17-B, CHANDIGARH
PH.: 0172-2779226

POSSESSION NOTICE

Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of UNION BANK OF INDIA, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(2) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice to below mentioned Borrower(s) on the date mentioned against account and stated hereinafter calling upon the Borrower(s) to repay the amount within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower(s) / Guarantor(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s) / Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on the date mentioned against account.

The Borrower(s) / Guarantor(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the UNION BANK OF INDIA, for an amount and interest thereon.

The Borrower's / Guarantor's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to the Borrower(s) to redeem the secured assets.

Name of the Branch AND Borrower, Guarantor & Mortgage	Date of Demand Notice	Date of Possession	Amounts O/s as on Date of Demand Notice	Description of the Immovable Property(ies)
BRANCH OFFICE:- KATCHERI ROAD, AMBALA CITY	07.03.2022	27.07.2022	Rs. 77,83,165.87 & interest thereon	Security:- (Details of property with boundaries as mentioned in demand notice)
Borrower(s):- Rajni Sharma D/o Shan Lal, Nagar, West: #18A Gobind Nagar, North: Gali, South: Others.				
BRANCH OFFICE:- KATCHERI ROAD, AMBALA CITY	20.05.2022	27.07.2022	Rs. 45,07,307.51 & interest thereon	Security:- CERSAI Registration ID: SI: 200024490991; Double Storey Commercial Property Shop No. 17, Owned by Subhash Chand at New Grain Market, Ambala City, Haryana - 134003. Bounded as under:- East: Shop No. 18; West: Shop No. 16; North: Road; South: Road.
Borrower(s):- M/s Main Pal Sharma & Co., 17 New Anaj Mandi, Ambala City, Haryana - 134003. Co-Borrower(s):- Mr. Parmesh Kumar S/o Sh. Main Pal (Proprietor), 575, Sonia Colony, Ambala City, Haryana - 134003. Guarantor(s):- Mr. Subhash Chand Sharma, 1913/11, Moti nagar, Ambala City - 134003.				
BRANCH OFFICE:- SECTOR 7-C, CHANDIGARH	09.02.2022	27.07.2022	Rs. 11,87,513.73 & interest thereon	Security:- Residential Building belonging to Mr. Amit Kumar situated at Flat No. 670, 6th Floor, Samridhi Tower, SBP Housing Park, Derabassi Mohali, Punjab.
Borrower(s):- Sh. Amit Kumar, Flat No. 670, 6th Floor, Samridhi Tower, SBP Housing Park, Derabassi Mohali, Punjab. Second Address:- Rajiv Gandhi Nagar Pragna Sadar, Farnukhabad, Uttar Pradesh.				
BRANCH OFFICE:- SECTOR 7-C, CHANDIGARH	27.01.2022	27.07.2022	Rs. 15,52,360.14 & interest thereon	Security:- Residential Property belonging to Sh. Ashish Rattan, Smt. Aarti Arora, Smt. Nirmal Rani and Sh. Kamal Rattan situated at House No. 1167, Phase 9, Mohali, District SAS Nagar, Punjab.
Borrower(s):- Sh. Ashish Rattan, House No. 1167, Phase 9, Mohali, District SAS Nagar, Punjab. Second Address:- House No. 458/2, Sector 44-A, Chandigarh. Third Address:- M/s Kamal Medicos, Shop No. 120, Sector 45-A, Burali, Chandigarh. Co-Borrower(s):- (1) Sh. Aarti Arora, House No. 1167, Phase 9, Mohali, District SAS Nagar, Punjab. Second Address:- House No. 458/2, Sector 44-A, Chandigarh. Third Address:- M/s Kamal Medicos, Shop No. 120, Sector 45-A, Burali, Chandigarh. (2) Smt. Nirmal Rani, House No. 1167, Phase 9, Mohali, District SAS Nagar, Punjab. Second Address:- House No. 458/2, Sector 44-A, Chandigarh. Third Address:- M/s Kamal Medicos, Shop No. 120, Sector 45-A, Burali, Chandigarh. (3) Sh. Kamal Rattan, House No. 1167, Phase 9, Mohali, District SAS Nagar, Punjab. Second Address:- House No. 458/2, Sector 44-A, Chandigarh. Third Address:- M/s Kamal Medicos, Shop No. 120, Sector 45-A, Burali, Chandigarh. Guarantor(s):- Sh. Babu Lal Arora, House No. 1167, Phase 9, Mohali, District SAS Nagar, Punjab. Second Address:- House No. 458/2, Sector 44-A, Chandigarh. Third Address:- M/s Kamal Medicos, Shop No. 120, Sector 45-A, Burali, Chandigarh.				
BRANCH OFFICE:- SECTOR 7-C, CHANDIGARH	05.03.2020	27.07.2022	Rs. 8,13,735/- & interest thereon	Security:- Residential building situated at House No. 656/2, Mohalla Dera Sahib, Manimajra, Chandigarh.
Borrower(s):- Sh. Harbans Singh S/o Sh. Karta Singh, House No. 656/2, Mohalla Dera Sahib, Manimajra, Chandigarh. Co-Borrower(s):- Sh. Hardeep Singh S/o Sh. Sucha Singh, House No. 656/2, Mohalla Dera Sahib, Manimajra, Chandigarh. Guarantor(s):- Sh. Pardeep Kumar S/o Sh. Pyare Lal, House No. 5295/2, Modern Housing Complex, Manimajra, Chandigarh.				
BRANCH OFFICE:- SECTOR 7-C, CHANDIGARH	06.01.2022	27.07.2022	Rs. 17,38,231.50 & interest thereon	Security:- Residential Property belonging to Sh. Pardeep Kumar and Smt. Radha situated at House No. 33-A, Ground Floor, MS Enclave, Village Dhakoli, Tehsil Derabassi, District SAS Nagar, Punjab.
Borrower(s):- Sh. Pardeep Kumar, House No. 534, Ward No. 23, Haripur Sector 4, Panchkula, Haryana. Second Address:- House No. 33A, Ground Floor, MS Enclave, Village Dhakoli, Tehsil Derabassi, District SAS Nagar, Punjab. Co-Borrower(s):- Smt. Radha, House No. 534, Ward No. 23, Haripur Sector 4, Panchkula, Haryana. Second Address:- House No. 33A, Ground Floor, MS Enclave, Village Dhakoli, Tehsil Derabassi, District SAS Nagar, Punjab. Guarantor(s):- Sh. Yog Kumar Sharma, House No. 534, Ward No. 23, Haripur Sector 4, Panchkula, Haryana. Second Address:- House No. 33A, Ground Floor, MS Enclave, Village Dhakoli, Tehsil Derabassi, District SAS Nagar, Punjab.				
BRANCH OFFICE:- SECTOR 7-C, CHANDIGARH	09.02.2018	27.07.2022	Rs. 8,75,615.52 & interest thereon	Security:- Residential building situated at House No. 605, Gobind Nagar, Nayagaon, District SAS Nagar, Punjab - 141060.
Borrower(s):- Sh. Parkash Chand Guleria, House No. 605, Gobind Nagar, Nayagaon, District SAS Nagar, Punjab - 141060. Guarantor(s):- Sh. Ghanshyam Kumar, House No. 81, Phase 2, Ram Darbar Colony, Chandigarh.				
BRANCH OFFICE:- SECTOR 33, CHANDIGARH	20.04.2021	27.07.2022	Rs. 29,98,562.24 & interest thereon	Residential belonging to Mrs. Minakshi Rani W/o Sanjay Kumar Gosain, situated at H. No. 2582C, Surya City 2, Sector 125, Sunny Enclave, Kharar, SAS Nagar, Mohali - 140301 measuring 138.89 Sq. Yard area comprised in Plot No. 2582C, Rakha 0-4-3-5 marle (138.89 Gaj) Khasra No. 8/11/2(5-16), 20(6-18), 7/6(6-11), 15(5-2) 16(3-4), 25(1-6) Plot No. 2582C, Surya City 2, Sector 125, Sunny Enclave, Kharar, SAS Nagar, Mohali and bounded by:- East: H. No. 2581; West: Road 20 Ft. Wide; North: Road 35 Ft. Wide; South: Other Property.
Borrower(s):- Sanjay Kumar Gosain, H. No. 2582C, Surya City 2, Sector 125, Sunny Enclave, Kharar, SAS Nagar, Mohali - 140301. Co-Borrower(s):- Mrs. Minakshi Rani W/o Mr Sanjay Kumar Gosain, R/o H. No. 2582C, Surya City 2, Sector 125, Sunny Enclave, Kharar, SAS Nagar, Mohali - 140301.				
BRANCH OFFICE:- SECTOR 25, PANCHKULA	20.04.2021	27.07.2022	Rs. 17,56,256.89 & interest thereon	Land and Building - belonging to Sh. Kamaldeep Singh situated at Property comprised in Khawat / Khatauni Number 77/110, Khasra No. 10/1 min (6-0) kite 1 Total land measuring 6 Kanal and its 52/1080 share i.e. 0 Kanal and 5 Maria, 7 Sarsahi measuring 175 Sq. Yards. Vacant Plot Kamaldeep Singh, Hadbasi No. 361, Sub-Tehsil Zirakpur, Tehsil Derabassi, Distt. SAS Nagar and bounded by:- East: Vacant Plot of Others; West: Vacant Plot of Others; North: Road; South: Vacant Plot of Others.
Borrower(s):- Mr. Kamaldeep Singh, Address:- House No. 115, MS Enclave, Dhakoli - 140301. Co-Borrower(s):- Mrs. Mahinder Kaur, Address:- House No. 115, MS Enclave, Dhakoli - 140301.				

Date: 27.07.2022
Place: Chandigarh
AUTHORISED OFFICER

JCK INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LIMITED
CIN:L70102KA1979PLC003590
Regd Office: 309, First Floor, West Minster Building, 13 Cunningham Road, Bengaluru - 560 052

Extract of the Statement of Standalone Un-audited Financial Results for the quarter Ended 30th June 2022

(₹ in Lakhs Except EPS & Share Capital and Unless otherwise stated)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2022	Quarter ended 30.06.2021	Quarter ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2022
		Unaudited	Unaudited	Audited	Audited
1	Total Income	727.14	125.56	188.53	700.64
2	Net Profit Before Tax	536.61	8.59	14.75	43.03
3	Net Profit After Tax	431.19	6.07	11.88	30.15
4	Total Comprehensive Income (OCI)	-	-	-	-
5	Equity Share Capital (FV of ₹10 Each)	41666670	41666670	41666670	41666670
6	EPS from Continuing Operations				
	- Basic	1.03	0.01	0.29	0.07
	- Diluted	1.03	0.01	0.29	0.07

The above is an extract to the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The Full format of the said Financial Results are available in the website of the Company www.jckgroup.in and also in Metropolitan Stock Exchange of India Limited www.msei.in respectively.

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
Jyoti Kapur
Whole Time Director

Date: 27.07.2022
Place: Bengaluru

Indian Clearing Corporation Limited
CIN: U67120MH2007PLC170358
Registered office: Floor 25, P J Towers, Dalal Street, Mumbai - 400001

Extract of standalone unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2022

₹ in Lakhs except per equity share data

Sr. No.	Particulars	Standalone	
		Quarter ended	Quarter ended
		June 30, 2022	June 30, 2021
		Unaudited	Unaudited
Continuing Operation			
1	Total Income	4,785	3,033
2	Net Profit for the quarter (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items and share of net profits of investments accounted for using equity method)	2,309	1,469
3	Net Profit for the quarter before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items and share of net profits of investments accounted for using equity method)	2,309	1,469
4	Net Profit for the quarter after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items and share of net profits of investments accounted for using equity method)	1,623	1,026
Discontinued Operation			
5	Profit from discontinued operation	-	-
6	Net Profit from total operation for the quarter after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,623	1,026
	(a) Attributable to the shareholders of the Company	1,623	1,026
	(b) Attributable to the non controlling interest	-	-
7	Total Comprehensive Income for the quarter / year [Comprising Profit for the quarter / year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,629	1,025
	(a) Attributable to the shareholders of the Company	1,629	1,025
	(b) Attributable to the non controlling interest	-	-
8	Equity Share Capital (Face value of ₹ 1 each)	35,400	35,400
9	Other Equity	41,644	32,729
10	Earnings Per Equity Share (Face value of ₹ 1/- each) (not annualized) (in ₹)		
	- Basic :	0.05	0.03
	- Diluted :	0.05	0.03

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter ended on June 30, 2022. The full format of financial results for the quarter ended June 30, 2022 are available on the Company's website at www.icclindia.com.

For and on behalf of Board of Directors of INDIAN CLEARING CORPORATION LIMITED
Devika Shah
Managing Director & CEO

Place : Mumbai
Date : July 27, 2022

CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF VINTRON INFORMATICS LIMITED

Registered Office: - D-107 & 108, Okhala Industrial Area Phase I, New Delhi-110020.

This Corrigendum to the Detailed Public Statement ("Corrigendum") is being issued by D & A Financial Services (P) Limited ("Manager to the Offer"), for and on behalf of the Acquirer(s) M/s. Vistara Network (P) Limited and M/s Telexcell Enterprise LLP, pursuant to and in compliance with Regulation 3(1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 as amended.

This Corrigendum should be read in continuation of and in conjunction with Detailed Public Statement ("DPS"), unless otherwise specified. Capitalized terms used but not defined in this Corrigendum shall have the same meaning assigned to such terms in the DPS, unless otherwise defined.

The shareholders of Vintron Informatics Limited are requested to note that the developments/amendments with respect to and in connection with DPS are as under:

- The revised schedule of activity pertaining to the Open Offer has been changed and shall be read as under.

S. No.	Activity	Original Schedule (Days & Dates)	Revised Schedule (Days & Dates)
1.	Date of Public Announcement	Friday, June 10, 2022	Friday, June 10, 2022
2.	Date of Publication of Detailed Public Statement	Friday, June 17, 2022	Friday, June 17, 2022
3.	Filing of the Draft letter of Offer to SEBI	Friday, June 24, 2022	Friday, June 24, 2022
4.	Last Date for a Competitive Offer(s)	Friday, July 08, 2022	Friday, July 08, 2022
5.	Identified Date*	Tuesday, July 19, 2022	Tuesday, July 22, 2022
6.	Date by which Final Letter of Offer will be dispatched to the shareholders	Tuesday, July 26, 2022	Friday, July 29, 2022
7.	Last Date for revising the Offer Price / number of shares.	Thursday, July 28, 2022	Tuesday, August 02, 2022
8.	Date by which the committee of the independent directors of the Target Company shall give its recommendations.	Friday, July 29, 2022	Wednesday, August 03, 2022
9.	Date of Publication of Offer Opening Public Announcement	Monday, August 01, 2022	Thursday, August 04, 2022
10.	Date of Commencement of Tendering Period (Offer Opening date)	Tuesday, August 02, 2022	Friday, August 05, 2022
11.	Date of Expiry of Tendering Period (Offer Closing date)	Thursday, August 18, 2022	Tuesday, August 23, 2022
12.	Last Date of communicating rejection / acceptance and payment of consideration for applications accepted / return of unaccepted share certificates / credit of unaccepted equity shares to demat account.	Friday, September 02, 2022	Wednesday, September 07, 2022

*The identified date is only for the purpose of determining the public shareholders as on such date to whom the Letter of Offer prior to be mailed. It is clarified that all the Public Shareholders (registered or unregistered) are eligible to participate in this offer at any time prior to the closure of tendering period.

The above dates where ever it appeared in the Detailed Public Statement should be read accordingly.

The Acquirer(s) accepts full responsibility for the information contained in this Corrigendum to the Detailed Public Statement and also the obligations of the Acquirers as laid down in the SEBI (SAST) Regulations, 2011 & subsequent amendments thereof.

This Corrigendum to the Detailed Public Statement will also be available on SEBI's website at www.sebi.gov.in.

Issued by Manager to the Offer on behalf of the Acquirers

D & A FINANCIAL SERVICES (P) LIMITED
13, Community Centre, East of Kailash, New Delhi-110 065
Tel: 011-4132621/40167038
Email: investors@dnafinserv.com
Contact Person: Mr. Priyaranjan

Date : 27.07.2022
Place: New Delhi

Classifieds
FROM ANYTHING TO EVERYTHING.

PERSONAL

hitherto known as FAR-MAAN/S/O-MD.JAVED KHAN/R/O-Z-40,Near-Badi Masjid,Near-Ranjnet Nagar,Patel-Nagar, Delhi-110008,have changed my name and shall hereafter be known as FARMAAN KHAN.

040624387-10

T,Dipti W/o Neeraj Gupta R/O-254, Bank Enclave,Laxmi Nagar,Delhi-110092,have changed my to Deeptri Gupta permanently.

040624253-1

T, Neeraj Gupta,R/O-254, Bank-Enclave, Laxmi Nagar,Delhi-110092, have changed my minor daughter name,from Bhavya Gupta to Bhavya Gupta, permanently.

040624253-10

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that Mrs. Asha Bhatnagar, who is owner of the GDA Built up Flat No. 42A on First Floor, Gyan Khambh (GK-IV), Indraprastha, Ghazipur (Property). And as per present owner's version the said property is free from all sorts of encumbrances. The Present owner informed/reported lost of original registration page of Land lease and sale of Construction Deed, the same is reported vide LR No. 631857/2022, dated 26/07/2022 with P.S. Crime Branch, Delhi. It is hereby notified that any person, Attorney and/or entity, firm/company, society and/or any member of society, Bank, HUF member of HUF, Financial Institutions having any claim, any charge, interest or lien or claim and/or objection to the said property, may lodge notify the same to the undersigned with documentary proof, within 15 days from the date of publication of this public notice, failing which any further claim (objection) shall be rejected & my client prospective buyer(s) as a bona-fide purchaser conclude the title Sale Deed proposed to be executed in favour of my client or in the name of his/her nominee shall be deemed to be clear and marketable without any defect, encumbrances, flaw and impediment.

Sd/-
Rohit Kumar (Advocate)
Chamber No.5, Ground Floor,
Rohini Court, Delhi-110085
Email- ujwala290@gmail.com

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Classifieds
FROM ANYTHING TO EVERYTHING.

CLASSIFIED AD DEPOT (CAD)
Book classified ads at your nearest Express Group's authorised Classified Ad Depots

EAST

PATPARGANJ : CHAVI ADVERTISERS, Ph.: 9899701024, 22090987, 22235837. **PREET VIHAR** : AD BRIDGE COMMUNICATION, Ph.: 9810029747, 42421234, 22017210. **SHAKARPUR** : PARICHAY ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9350309890, 22519890, 22549890

WEST

JANAKPURI : TRIMURTI ADVERTISERS, Ph.: 9810234206, 25530307, **KAROL BAGH (REGHARPURA)** : K R ADVERTISERS, Ph.: 9810316618, 9310316618, 41547697. **KARAM-PURA** : GMJ ADVERTISING & MARKETING PVT. LTD., Ph.: 9310333777, 9211333777, 9810883377. **NEW MOTI NAGAR** : MITTAL ADVERTISING, Ph.: 25178183, 9810538183, 9555945923. **MOTI NAGAR** : UMA ADVERTISERS, Ph.: 9312272149, 8000276797. **RAMESH NAGAR** : POSITIVE ADS, Ph.: 9891195327, 9310066777, 65418908. **TILAK NAGAR** : SHIVA ADVERTISERS, Ph.: 9891461543, 25980670, 20518836. **VIKAS PURI** : AAKAR ADVT. MEDIA Ph.: 9810401352, 9015907873, 9268796133

CENTRAL

CHANDNI CHOWK : RAMNIWAS ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9810145272, 23912577, 23928577. **CONNAUGHT PLACE** : HARI OM ADVERTISING COMPANY Ph.: 9811555181, 43751196

NORTH

TIS HAZARI COURT : SAI ADVERTISING, Ph.: 981117748 **KINGWARY CAMP** : SHAGUN ADVERTISING, Ph.: 9818505505, 27489589. **PATEL CHEST (OPP. MORRIS NAGAR POLICE STATION)** : MAHAN ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9350304609, 7042590693. **PITAMPURA (PRASHANT VIHAR)** : PAAVAN ADVERTISER Ph.: 9311564460, 9311288839, 47059299

SOUTH

CHATTARPUR : A & M MEDIA ADVERTISING, Ph.: 9811602901, 65181100, 26301008. **KALKAJI** : ADWIN ADVERTISING, Ph.: 981111825, 41605556, 26462690. **MALVIYA NAGAR** : POOJA ADV. ADVERTISING & MARKETING SERVICE, Ph.: 9891081700, 24331091, 46568866. **YSUF SARAI** : TANEJA ADVERTISEMENT & MARKETING Ph.: 9818843218, 26561814, 26510090

NCR

FARIDABAD (NEELAM FLYOVER) : AID TIME (INDIA) ADVERTISING, Ph.: 9811195834, 0129-2412798, 24

कर्मचारी सेवा, नई दिल्ली-110001, फोन: 23730449, 23521444, 23730886, ईमेल: bom343@mahabank.co.in, फैक्स नं.: 23521754, आईएफएससी कोड: MAHB000343

प्रधान कार्यालय: लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे-411005

कर्मचारी सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 31.01.2022 जारी कर 1. मै. सीएमआई लिमिटेड (ऋणधारक) 2. श्री परम जैन (गारंटर), 3. श्री अमित जैन (गारंटर) तथा 4. श्री विश्व प्रभा जैन (गारंटर) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 20,77,65,543.16/- (रुपये बीस करोड़ सतहतर लाख पैंसठ हजार पांच सौ तैतालिस एवं पैसे सौलह मात्र)+31.01.2022 से अनुबंधित दर पर 31.01.22 के बाद अप्रयुक्त ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था। यह सूचना स्पीड पोस्ट से भेजी गई थी। ऋणधारक एवं गारंटर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा ऋणधारक/गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 22 जुलाई 2022 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमवली 2002 के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारक/गारंटरों तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय ऊपर वर्णित राशि के लिये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक/गारंटर का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

बैंक के पास गिरवी रखी गई तथा बैंक द्वारा कब्जे में ली गई सम्पत्तियों का विवरण इस प्रकार है:

समानरूप आधार पर प्रथम प्रभार के अंतर्गत प्लॉट नं. 71 एवं 82, सेक्टर-6, फरीदाबाद, हरियाणा 121006 में स्थित कम्पनी की सम्पूर्ण चालू परिसम्पत्तियों (वॉरमन एवं भविष्य दोनों) तथा कम्पनी की सम्पूर्ण निर्धारित परिसम्पत्तियों/वॉरमन एवं भविष्य दोनों/के साथ समानरूप आधार पर प्रथम प्रभार के अंतर्गत प्लॉट नं. 71 एवं 82, सेक्टर-6, फरीदाबाद, हरियाणा 121006 में स्थित कम्पनी की औद्योगिक संपत्ति। तिथि: 22.07.2022, स्थान: नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र

कर्मचारी सेवा, नई दिल्ली-110001, फोन: 23730449, 23521444, 23730886, ईमेल: bom343@mahabank.co.in, फैक्स नं.: 23521754, आईएफएससी कोड: MAHB000343

प्रधान कार्यालय: लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे-411005

कर्मचारी सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 31.01.2022 जारी कर 1. मै. सीएमआई लिमिटेड (ऋणधारक) 2. श्री परम जैन (गारंटर), 3. श्री अमित जैन (गारंटर) तथा 4. श्री विश्व प्रभा जैन (गारंटर) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 20,77,65,543.16/- (रुपये बीस करोड़ सतहतर लाख पैंसठ हजार पांच सौ तैतालिस एवं पैसे सौलह मात्र)+31.01.2022 से अनुबंधित दर पर 31.01.22 के बाद अप्रयुक्त ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था। यह सूचना स्पीड पोस्ट से भेजी गई थी। ऋणधारक एवं गारंटर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा ऋणधारक/गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 22 जुलाई 2022 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमवली 2002 के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय ऊपर वर्णित राशि के लिये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक/गारंटर का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

बैंक के पास गिरवी तथा बैंक द्वारा कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है:

श्री परम जैन के नाम में 1/3-ए, कुन्दन नगर (खुरड़ी खास), शाहदरा, दिल्ली-110092 में स्थित ऊपरी भूतल की आवासीय सम्पत्ति। तिथि: 22.07.2022, स्थान: नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र

भारत सरकार
वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय
आर्थिक क्रियाकलाप (बैंकिंग प्रभाग) विभाग
मुम्बई ऋण वसूली अधिकरण सं. II, मुम्बई में
कार्यालय: वसूली अधिकारी, डीआरटी II,
3रा तल, एमटीएनएल भवन, कोलाहा मार्केट, कोलाहा, मुम्बई-400005

रिक्तवरी कार्रवाई सं. 2018 का 73

एडिजिटिव नं-41
अगली तिथि: 17.8.2022

बैंक ऑफ बड़ोदा
बनाम
एस आई 2 माइक्रोसिस्टम प्र. लि. एवं अन्य
विक्री उद्घोषणा निर्धारित करने के लिये सूचना

सेवा में,
1- एसआई 2 माइक्रोसिस्टम प्र. लि.
52/ए, 1 ला क्रॉस के आर्गेंडी, इंडस्ट्रियल एरिया, शेरेकोटे, बैंगलूर

2- श्री जयकृष्ण काटपुद्र जयेश्वर
ई-79, भूतल, ट्रेड कैलाश पार्क-3, मन्दिब मोड, नई दिल्ली- 110048

3- श्री हर्ष गुप्ता
201ए, लखनऊ अपार्टमेंट, सुभाष लोक, फेज-1, गुडगांव-122001, हरियाणा

4- श्री संजय चेट्टुराज सोनी
प्लॉट नं. 9, प्रेस्टीज कैमाल्लिका, अपार्टमेंट, 12/1, एरघोटे रोड, बैंगलूर-560007

5- श्री दीनानाथ चेट्टुराज सोनी
प्लॉट नं. 9, प्रेस्टीज कैमाल्लिका, अपार्टमेंट, 12/1, एरघोटे रोड, बैंगलूर-560007

6- डिजीटी सिस्टम प्र. लि.
84, दौप टावर, डीआईटी, वाटपिन्ड, बैंगलूर

जैसा कि आप एस आई 2 माइक्रोसिस्टम प्र. लि. को ओ.ए.नं. 2017 के 11 में डीआरटी-II मुम्बई के पीएलसी अधिकारी जिन्होंने रिक्तवरी प्रमाणपत्र तिथि 06/10/2018 जारी किये थे, के द्वारा 17.9.2016 से उसकी वसूली तक मासिक रेट के साथ 15.85% प्रति वर्ष की दर से आगे के तथा प्लानिबल ब्याज के साथ रु. 18,52,67,171.46/- (रु. अठारह करोड़ बावन लाख सठसठ हजार एक सौ इकहतर एवं पैसे छियालिस मात्र) की राशि का आवेदक बैंक को भुगतान करने का आदेश दिया गया था तथा जैसा कि उक्त सूचना में उल्लिखित किया गया है, अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित अवल सम्पत्ति को विक्री का आदेश दिया है। जैसा कि आपने उक्त राशि का भुगतान नहीं किया है तथा अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित सम्पत्ति को एटेंच कर लिया है तथा उसकी विक्री का आदेश दिया है। एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि विक्री की उद्घोषणा तैयार करने तथा उसकी शर्तों को तय करने के लिये 17 अगस्त, 2022 की तिथि निर्धारित किया गया है। एतद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि उद्घोषणा की शर्तों को तय करने में शामिल हो तथा उक्त सम्पत्ति अथवा उसके किसी भाग से जुड़ी अधिकारों, प्रभारों, दावे अथवा देवताओं से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएं।

सम्पत्ति का विनिर्देशन
औद्योगिक प्लॉट नं. 82-ए, सर्वे नं. 81/91 एवं 87 का भाग, चोककाहल्ली ग्राम, कन्नडा हबली, होसाकोटे, बैंगलूर जिला की अवल सम्पत्ति माप, पूर्व में 115 मी., पश्चिम में 115 मीटर, उत्तर में 40 मी. तथा दक्षिण में 41 मी., सम्पूर्ण माप: 4656 वर्ग मी. मेरे हाथ से तथा इस अधिकरण की मुहर लगाकर मुम्बई नं 21 जुलाई, 2022 को दी गई।

हस्ता./-
(सुनील के. मेथाम)
वसूली अधिकारी
डीआरटी-II, मुम्बई

CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF VINTRON INFORMATICS LIMITED

Registered Office: - D-107 & 108, Okhala Industrial Area Phase I, New Delhi-110020.

This Corrigendum to the Detailed Public Statement ("Corrigendum") is being issued by D & A Financial Services (P) Limited ("Manager to the Offer"), for and on behalf of the Acquirer(s) M/s. Vistara Network (P) Limited and M/s. Telexcell Enterprise LLP, pursuant to and in compliance with Regulation 3(1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 as amended.

This Corrigendum should be read in continuation of and in conjunction with Detailed Public Statement ("DPS"), unless otherwise specified. Capitalized terms used but not defined in this Corrigendum shall have the same meaning assigned to such terms in the DPS, unless otherwise defined.

The shareholders of Vintron Informatics Limited are requested to note that the developments/amendments with respect to and in connection with DPS are as under:

1. The revised schedule of activity pertaining to the Open Offer has been changed and shall be read as under.

S. No.	Activity	Original Schedule (Days & Dates)	Revised Schedule (Days & Dates)
1.	Date of Public Announcement	Friday, June 10, 2022	Friday, June 10, 2022
2.	Date of Publication of Detailed Public Statement	Friday, June 17, 2022	Friday, June 17, 2022
3.	Filing of the Draft letter of Offer to SEBI	Friday, July 24, 2022	Friday, July 24, 2022
4.	Last Date for a Competitive Offer(s)	Friday, July 08, 2022	Friday, July 08, 2022
5.	Identified Date*	Tuesday, July 19, 2022	Friday, July 22, 2022
6.	Date by which Final Letter of Offer will be dispatched to the shareholders	Tuesday, July 26, 2022	Friday, July 29, 2022
7.	Last Date for revising the Offer Price / number of shares.	Thursday, July 28, 2022	Tuesday, August 02, 2022
8.	Date by which the committee of the independent directors of the Target Company shall give its recommendations.	Friday, July 29, 2022	Wednesday, August 03, 2022
9.	Date of Publication of Offer Opening Public Announcement	Monday, August 01, 2022	Thursday, August 04, 2022
10.	Date of Commencement of Tendering Period (Offer Opening date)	Tuesday, August 02, 2022	Friday, August 05, 2022
11.	Date of Expiry of Tendering Period (Offer Closing date)	Thursday, August 18, 2022	Tuesday, August 23, 2022
12.	Last Date of communicating rejection / acceptance and payment of consideration for applications accepted / return of unaccepted share certificates / credit of unaccepted equity shares to demat account.	Friday, September 02, 2022	Wednesday, September 07, 2022

*The identified date is only for the purpose of determining the public shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be mailed. It is clarified that all the Public Shareholders (registered or unregistered) are eligible to participate in this offer at any time prior to the closure of tendering period.

The above dates where ever it appeared in the Detailed Public Statement should be read accordingly.

The Acquirer(s) accepts full responsibility for the information contained in this Corrigendum to the Detailed Public Statement and also the obligations of the Acquirers as laid down in the SEBI (SAST) Regulations, 2011 & subsequent amendments thereof.

This Corrigendum to the Detailed Public Statement will also be available on SEBI's website at www.sebi.gov.in.

Issued by Manager to the Offer on behalf of the Acquirers

D & A FINANCIAL SERVICES (P) LIMITED
13, Community Centre, East of Kailash, New Delhi-110 065
Tel: 011-41326121/40167038
Email: investors@dnafinsserv.com
Contact Person: Mr. Priyaranjan

Date: 27.07.2022
Place: New Delhi

व्यक्ति एवं संस्थाएं ध्यान दें
(जिनकी लेखा बहियों की लेखा परीक्षा आवश्यक नहीं है)

ई-फाइल करें

आईटीआर

निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए 31 जुलाई 2022 तक या इससे पूर्व

आपका कर देश की उन्नति में सहायक है। सही फाइल करें, समय से फाइल करें और को सशक्त बनाएं।

समय पर आयकर रिटर्न फाइल करने से करदाताओं को लाभ:

- ❖ आप ब्याज सहित रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।
- ❖ आईटीआर से ऋण व क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त करने में आसानी होती है।
- ❖ आईटीआर से वीजा आवेदनों की प्रोसेसिंग में आसानी होती है।
- ❖ संशोधित रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

नियत तिथि तक आयकर रिटर्न फाइल नहीं करने के परिणाम:

- ❖ ब्याज के लिए दायी हो सकते हैं।
- ❖ कुछ असमायोजित हानियों को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है।

आयकर रिटर्न ई-फाइल करने के लिए लॉग ऑन करें : www.incometax.gov.in

दाखिल करने से पूर्व अपने फॉर्म 26AS, AIS और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर लें।

आयकर विभाग केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

संपर्क करने के लिए हैल्पलाइन : 1800 103 0025 | 1800 419 0025 | @IncomeTaxIndia @Incometaxindiaofficial

आयकर विभाग केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

आयकर विभाग केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

क्र.सं.	वर्ष	स्वामित्व धारक का नाम
1.	स्टॉक तथा बुक डेट का सुविधायक	ओम विहिंगेन मैटैरियल्स/चिरग एंटरप्राइजेज
अवल		
2.	आवासीय प्लॉट नं. 12 एवं 13, माप क्षेत्रफल 128.75 वर्ग मीटर, खसरा नं. 1114 में स्थित, ग्राम शाहपुर चम्बेटा, परगना धारमन, तहसील एवं जिला गाजियाबाद पूर्व : प्लॉट नं. 14 श्रीमती दीपदी देवी का, पश्चिम : प्लॉट नं. 11 श्री महावीर का, उत्तर : प्लॉट नं. 22 श्री गुरुद एवं श्री रामू का, दक्षिण : 15 फीट चौड़ी सड़क	कमलेश यादव

क्र.सं.	वर्ष	स्वामित्व धारक का नाम	अव. तक ब्याज सहित देयता	व्याज की दर
1	90211400000368	ODMSME	11,02,833.31	8.65
2	90217100000442	COVID FITL	53,213.51	9.80
3	90219160000492	GECL	2,19,014.72	7.90
4	902114000002024	ODMSME	11,74,979.30	10.75
5	90217100000576	COVID FITL	53,213.51	9.80
6	902191600000050	GECL	2,17,945.40	7.50

आपका विवरण, आयकर विभाग, अधिकृत प्राधिकारी

